

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
अंतरिक्ष विभाग/DEPARTMENT OF SPACE
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र/VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE
एमवीआईटी/MECHANISMS & VEHICLE INTEGRATION TESTING
तिरुवनंतपुरम/THIRUVANANTHAPURAM - 695 547

विज्ञा. सं. वीएसएससी/ एमवीआईटी /विज्ञा./2 /2021 दि.09.08. 2021
ADVT. NO. VSSC/MVIT/ADVT/2/2021 DT. 09 .08. 2021

भारतकेराष्ट्रपतिकेलिएतथाउनकीओरसे वरिष्ठ क्रय व भंडार अधिकारी, विक्रमसाराभाईअंतरिक्षकेंद्र (वीएसएससी), एमवीआईटी, तिरुवनंतपुरम, निम्नलिखित केलिए ई-प्रापणके ज़रिए निविदाएं आमंत्रित करता है।

For & on behalf of the President of India, the Sr. Purchase & Stores Officer, MVIT, Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC), Valiamala, Thiruvananthapuram invites Tenders through e-procurement for the following :-

| क्रम सं. Sl. No | निविदा सं. Tender No. | वर्णन/ Description | मात्रा Qty. | निविदा शुल्क Tender Fee |
|--------------------|---|---|----------------|----------------------------------|
| 01. | VSSC/ PURCHASE UNIT IV (MVIT PURCHASE)/ VS202100049901 [एकल भाग / SINGLE PART] | प्रक्षुब्ध प्राचलों केऑनलाइन अभिकलन के साथ 3 डी पराश्रव्य पवन वेगमापी 3D Ultrasonic Anemometer with Online Computation of Turbulent Parameters | 1सं./No. | लागूनहीं / NA |

| Sl. No. | बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा Time limit for submission of Bid | बोली खोलने की तिथि Bid Opening date |
|---------|--|--|
| 01. | Upto 13.08.2021 [15:36 Hrs.] | 10.09.2021 [09:36 Hrs.] |

विवरण ई-प्रापण पोर्टल <https://eproc.vssc.gov.in> पर उपलब्ध है।

details are available in ISRO e-procurement portal <https://eproc.vssc.gov.in>.

शुद्धिपत्र, यदि कोई हो तो, हमारे वेबसाइट www.vssc.gov.in / www.isro.gov.in में मात्र प्रकाशित किया जाएगा।

Corrigendum, if any will be published in our websites : www.vssc.gov.in / www.isro.gov.in only.

हस्ताक्षरित/Sd/-

वरिष्ठ क्रय व भंडार अधिकारी /Sr. Purchase & Stores Officer

E-Tenders are invited for **3D Ultrasonic Anemometer with Online Computation of Turbulent Parameters**. The Bids are to be prepared and submitted in specified Templates online, by logging into the portal <https://eproc.vssc.gov.in>. Submission of Bids involves two stages to be performed by Vendors - Submission of Bids and Open Authorization. The Bids remain encrypted with the bidders's public key, until the Open Authorization stage. All those Bids where Open Authorization is not given, are automatically disqualified. Such Bids will not be openable and will not be considered for further processing. The Vendors are advised to submit the Bids much before the Closing Time to avoid last minute problems.

E-Procurement No. VSSC/PURCHASE UNIT IV (MVIT PURCHASE)/VS202100049901 Dt. 28.07.2021 and Print Media Advertisement ref. No.**ADVT. NO. VSSC/MVIT/ADVT/2/2021** Dtd. **09.08.2021**. E-Tenders are invited for **3D Ultrasonic Anemometer with Online Computation of Turbulent Parameters** through our E-procurement site <https://eproc.vssc.gov.in>. Bids can be submitted **upto 13.08.2021 [15:36 Hrs.]**, **Bid Opening date : 10.09.2021 [09:36 Hrs.]**.

Only online tenders will be accepted. No manual / Postal / e-mail / fax offers will be entertained. No manual tender document will be issued. Parties interested to participate in this e-Tender are required to register themselves as vendors, if not already registered, in our e-procurement portal <https://eproc.vssc.gov.in> by downloading plugins and help demos listed on the home page of the e-procurement link mentioned above to complete the vendor registration process. They can seek help from help desk 080 6780 7786 also as provided in the home page of e-procurement portal in case of any problem for registration and subsequent process. Vendors may please note that without registering in our e-procurement portal, they will not be able to quote for this e-tender.

Important Notice : Tender shall be opened on the first day of the schedule [ie. **10.09.2021 [09:36 Hrs.]**]. If the tender could not be opened on the first day due to any technical snag, it will be opened on the subsequent day as per the schedule. Bidders who are desirous of attending the tender opening may make arrangements for attending the tender opening at their cost.